



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260047
CG-DL-E-08012025-260047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2025/पौष 18, 1946

No. 142]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2025/PAUSHA 18, 1946

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

का.आ. 144(अ).— चूंकि भारत सरकार ने 2 फरवरी, 2009 को भारत में असैन्य परमाणु सुविधाओं के लिए सुरक्षा उपायों के अनुप्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (जिसे आगे एजेंसी कहा जाएगा) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो 11 मई, 2009 को लागू हुआ;

2 फरवरी, 2009 को एजेंसी के लिए विशेषाधिकार और उन्मुक्ति पर एक करार (जिसे इसके बाद उक्त करार कहा जाएगा) पर हस्ताक्षर किए थे ;

और चूंकि उक्त करार के उपबंधों में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की गई है;

और चूंकि एजेंसी, उसकी परिसंपत्तियां, आय और अन्य संपत्ति उक्त समझौते के अनुच्छेद 11 की धारा 8(ख) के प्रावधानों के अनुसार एजेंसी द्वारा अपने आधिकारिक उपयोग के लिए आयातित या निर्यातित वस्तुओं के संबंध में आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क और निषेध और प्रतिबंधों से मुक्त होगी;

और चूंकि केन्द्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन एजेंसी तथा उसके प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान करना समीचीन समझती है;

अब, अतएव, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 1 से 8 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, निम्नलिखित संशोधनों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और उसके प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों पर लागू होंगे, नामतः-

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, "संयुक्त राष्ट्र" और "महासचिव" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः "अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी" और "महानिदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. डी-II/451/16(1)/2024]

अंशुमान गौड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2025

S.O. 144(E).— WHEREAS the Government of India signed an Agreement with International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the Agency) for the Application of Safeguards to Civilian Nuclear Facilities in India on 2nd day of February 2009, which came into force on 11th May, 2009;

AND WHEREAS the Government of India signed an Agreement on the Privileges and Immunities for the Agency (hereinafter referred to as the said agreement) on 2nd day of February 2009;

AND WHEREAS the provisions of the said agreement provide for privileges and immunities to International Atomic Energy Agency, to its representatives and officials;

AND WHEREAS the Agency, its assets, income and other property shall be exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Agency for its official use as per the provisions of section 8(b) of Article III of the said agreement ;

AND WHEREAS the Central Government considers it expedient to extend the necessary privileges and immunities provided under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) to the Agency and to its representatives and officials;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of Articles I to VIII of the Schedule to the said Act shall apply, mutatis mutandis, to the International Atomic Energy Agency and to its representatives and officials, subject to following modifications, namely:-

In the Schedule to the said Act, for the words "The United Nations" and "Secretary General" wherever they occur, the words "International Atomic Energy Agency" and "Director General" shall respectively be substituted.

[F. No. D-II/451/16(1)/2024]

ANSHUMAN GAUR, Jt. Secy.